



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1944 (श0)

(सं0 पटना 83) पटना, शुक्रवार, 27 जनवरी, 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2023

सं० स0सु0विविध (बैठक)-05/27/2018-89—बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-31 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति के पत्रांक—F.No. 05/CoRS/2022, दिनांक-29.03.2022 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—RT-25043/03/2017-RSC-Part(1), दिनांक-06.04.2022 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम 24, 25 एवं 26 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।

- (1) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. (क) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-24 को निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“24. जिला सड़क सुरक्षा समिति की संरचना— प्रत्येक जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों की संरचना निम्नलिखित होगी :-

(1)	जिलाधिकारी सह समाहर्ता (पदेन)	— अध्यक्ष
(2)	जिला पुलिस अधीक्षक (पदेन)	— सदस्य
(3)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य (पदेन)	— सदस्य
(4)	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण (सड़क)	— सदस्य
(5)	क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, MoRTH	— सदस्य
(6)	परियोजना निदेशक, NHAI	— सदस्य
(7)	नगर निगम/नगर निकाय/अधिसूचित प्राधिकरण के कार्यपालक पदाधिकारी	— सदस्य

(8)	राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कार्यरत कम से कम एक नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) या कोई अन्य गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)	— सदस्य
(9)	जिला परिवहन पदाधिकारी	— सदस्य सचिव (प्रशासन)
(10)	राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़क के राजमार्ग प्रशासक (एमडीआर)	— सदस्य सचिव (तकनीकी)

(ख) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-25 को निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“25. जिला सड़क सुरक्षा समिति के विचारार्थ विषय एवं कार्य—जिला सड़क सुरक्षा समिति के विचारार्थ विषय एवं कार्य निम्नानुसार होंगे —

- (1) जिले में सड़क दुर्घटनाओं की सामयिक समीक्षा।
- (2) जिले में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी।
- (3) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की निगरानी।
- (4) सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान और अध्ययन।
- (5) सड़क सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- (6) राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन और इसके तहत निर्धारित लक्ष्य की निगरानी।
- (7) सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों को लागू करना।
- (8) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के निर्णयों का जिलों में क्रियान्वयन।
- (9) गति सीमा और ट्रैफिक कालमिंग मेजर्स की समीक्षा।
- (10) जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं का समय-समय पर समीक्षा कर बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् को नियमित रूप से निम्न बिन्दुओं पर अवगत कराना :-
 - (क) वाहनों का विवरण,
 - (ख) दुर्घटना का कारण,
 - (ग) दुर्घटना जांच स्थल की विवरणी, यदि कोई साक्ष्य हो,
 - (घ) उल्लंघनकर्ता का विवरण (यदि कोई हो),
 - (ङ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की विवरणी, और पीड़ितों की अद्यतन स्थिति,
 - (च) चोट के प्रकार के कारण,
 - (छ) FIR यदि कोई दर्ज हो।
- (11) दुर्घटना के आंकड़ों का मासिक आधार पर सार्वजनिक पटल पर प्रकाशन :-
 - (क) जिला वेबसाइट पोर्टल (व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाना है)
 - (ख) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल।
- (12) जिला सड़क सुरक्षा योजना विकसित करना।
- (13) जिलों में होनेवाली सामूहिक मृत्यु के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-135A के तहत दुर्घटना की फॉरेंसिक जांच सुनिश्चित करना।
- (14) उचित स्थान पर एम्बुलेंसों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि, पीड़ित को ससमय अस्पतालों में पहुँचाने में सुविधा हो तथा प्रतिक्रिया समय में सुधार हो सके।
- (15) जिले में पूर्व में हुई दुर्घटना की संख्या के अनुसार विभिन्न प्रकार के एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- (16) जिले में बड़े पैमाने पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक आपातकालीन चिकित्सा योजना तैयार करना।
- (17) एक पूर्व अधिसूचना प्रणाली स्थापित करके अस्पतालों और एम्बुलेंस के बीच संबंध सुनिश्चित करना। आपात स्थिति में बिस्तरों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अस्पतालों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना।
- (18) सड़क सुरक्षा निधि का रख-रखाव, आवश्यकता, और वितरण के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करना और आवश्यकता पड़ने पर यथास्थिति एवं यथासमय राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एवं लीड एजेंसी के साथ समन्वय करना।
- (19) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्/लीड एजेंसी, बिहार को नियमित रूप से सूचनाओं से अवगत कराना तथा दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों/ब्लैक स्पॉट आदि के संबंध में तथा 4Es-Engineering, Education, Enforcement और Emergency के महत्व के संबंध में सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों की अनुशंसा करना।
- (20) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए गुड सेमेरिटन को बढ़ावा देना।
- (21) जिला के अन्तर्गत शहर एवं ग्राम पंचायत में ट्रैफिक पार्क सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।
- (22) राज्य सरकार को यथाअपेक्षित नियमों के निर्माण अथवा संशोधन हेतु सुझाव देना :-

- (क.) मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा- 107, 138, 176, 210D, 215D के अंतर्गत।
 (ख.) मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 135 के तहत स्कीम।
 (23) सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दे।
 (ग) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 के नियम-26 के उपनियम-4को निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“26. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का स्थान और आवृत्ति –

(4)–जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कम से कम पाक्षिक रूप से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करना और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर महीने में कम से कम एक बार भौतिक रूप से बैठक करना। बैठक की कार्यवाही बैठक के 48 घंटों के अंदर जिला वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना और प्राधिकृत पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर भी अपलोड करना।”

बिहार–राज्यपाल के आदेश से।

पंकज कुमार पाल,

सरकार के सचिव।

The 27th January, 2023

No. स. सु. विविध (बैठक)–05/27/2018–89—In light of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court Committee on Road Safety vide letter No F.No. 05/CoRS/2022 dated-29.03.2022 and Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH), Government of India vide letter No.-RT-25043/03/2017-RSC-Part (1), dated 06-04-2022, in exercise of the power conferred by Rule 31 of the Bihar Road Safety Council Rules, 2018 the rule-24, Rule- 25 and rule-26 of Bihar Road Safety Council Rules, 2018, is amended as follows:-

1. Short name, extension & commencement.—

- (1) These Rule may be called the Bihar Road Safety Council (Amendment) Rule-2022
 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 (3) It shall come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

2. (a) Rule 24 of Bihar Road Safety Council Rules, 2018 shall be substituted by the following :-

"24. Composition of District Road Safety Committee-Every District Road Safety Committee shall have the following composition of members namely :-

(1)	District Magistrate & Collector (Ex-officio)	– Chairman
(2)	District Superintendent of Police (Ex- officio)	– Member
(3)	Chief Medical Officer of Health (Ex- officio)	– Member
(4)	Executive Engineer, RCD (Roads)	– Member
(5)	Representative of Regional Office, MoRTH	– Member
(6)	Project Director, NHAI	– Member
(7)	Executive Officer of Municipalities /Urban bodies /Notified Authorities	– Member
(8)	At least one civil Society Organization (CSO) or any other Non Government Organization (NGO) Working on improving Road Safety in the State	– Member
(9)	District Transport Officer	-Member Secretary (Administration)
(10)	Highway Administrator of State Highways and Major District Road (MDRs)	–Member Secretary (Technical)

- (b) Rule 25 of Bihar Road Safety Council Rules, 2018 shall be substituted by the following :-

"25. The Terms of reference and functions of District Road Safety Committee :-

The Terms of references and Functions of District Road Safety Committee shall be as under:-

1. Periodic review of road accidents in the district.
2. Monitoring of road safety activities in the district.
3. Monitoring of road accidents data.
4. Identification and study of causes of road accidents.
5. Ensuring implementation of road safety standards.
6. Monitor the implementation of State Road Safety Policy and the target set under it.
7. Implement directions of the Supreme Court Committee on Road Safety, Government of India and the State Government as may be issued from time to time on matters of road safety.
8. Implementation of decisions of the Bihar Road Safety Council in the district.
9. Review of the speed limits and traffic calming measures.
10. Regularly track and update State Road Safety Council on details of road crashes that took place in the district, which shall include :
 - a. Details of the vehicle
 - b. Cause of crash
 - c. Details of spot in investigation, evidence if any
 - d. Details of offender's (if any)
 - e. Details of road accident victims and victims latest condition
 - f. Types of injury causes
 - g. FIR registered in any
- (11) Publish road accident data on monthly basis on public domain on
 - a. The district website portal (to be widely published)
 - b. The MoRTH portal.
- (12) Develop a district road safety plan.
- (13) Ensure forensic crash investigation U/s 135A of the Motor Vehicles Act for all mass fatality crashes in the district.
- (14) Ensure optimal placements of ambulances to help improve response time and handover time to hospitals.
- (15) Ensure adequate availability of different ambulance types as per historic caseload in the district.
- (16) Prepare an Emergency medical plan for mass fatality accidents in the district.
- (17) Ensure linkage between hospitals and ambulances through setting up a prior notification system. Ensure linkage between hospitals to find out availability of beds in case of emergency.
- (18) Act as a nodal body for placing, requirement (s) and disbursal of road safety funds and interact with State Road Safety Council and Lead Agency as and when required.
- (19) Provide regular inputs to the Bihar Road Safety Council/ Lead Agency, Bihar and recommend road safety measures especially with regard to identification of major accident- Prone areas/Black spots etc. and also in parts regarding the importance of 4Es viz. Engineering, Education, Enforcement & Emergency.
- (20) Promote Good Samaritans to assist the road accidents victims.

- (21) Establishment of traffic park cum training center at town/city and Gram panchayat in a district.
- (22) Provide suggestion(s) to state Government as and when required to formulate or amend:
- a. Rules U/s 107, U/s 138, U/s 176, U/s 210D U/s 215D of the MV (A) Act, 2019
1. Schemes U/s 135 of MV (A) Act, 2019
- (23) To discuss any other issue related to road safety."
- (c) Subrule 4 of Rule-26 of Bihar Road Safety Council Rules, 2018 shall be substituted by the following :-
- "26. Place and frequency of Meeting of the District Road Safety Committee:-**
- (4) The District Road Safety Committee shall hold its meeting at least fortnightly on virtual platform and meet physically at least once a month at a venue prescribed by the Chairman. The Minutes of the meeting shall be made public on the district website within 48 hours of the meeting and also be uploaded to the web portal of MoRTH."

By order of the Governor of Bihar.

Pankaj Kumar Pal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 83-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>